

वस्त्र मंत्रालय

मंत्रिमंडल के लिए दिसंबर, 2017 माह का मासिक सार

1. नीतिगत निर्णय :-

i. वस्त्र क्षेत्र क्षमता निर्माण योजना (एससीबीटीएस):

आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति ने वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान 1300 करोड़ रुपए के परिव्यय से क्रियान्वित की जाने वाली वस्त्र क्षेत्र क्षमता निर्माण योजना (एससीबीटीएस) को अनुमोदित कर दिया है। वस्त्र क्षेत्र के विभिन्न सेगमेंटों में 10 लाख व्यक्तियों का कौशल विकास और प्रमाणित किए जाने की आशा है जिसमें से 1 लाख लोग परंपरागत क्षेत्रों से होंगे।

ii. एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी)

एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) वर्ष 2017-20 की अवधि के लिए 112 करोड़ रुपए के परिव्यय से शुरू किया गया था। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड के माध्यम से क्रियान्वित आईडब्ल्यूडीपी, भेड़ पालन से लेकर तैयार उत्पादों के विपणन तक ऊन क्षेत्र की समग्र श्रृंखला को सहायता प्रदान करेगा।

iii. पटसन पैकिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य उपयोग) के विस्तार की अधिसूचना:

पटसन पैकिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य उपयोग) अधिनियम, 1987 के अंतर्गत कतिपय वस्तुओं की आपूर्ति और वितरण में पटसन पैकिंग सामग्री के अनिवार्य उपयोग के प्रावधानों की दिनांक 31.12.2017 को जारी राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से दिनांक 31.03.2018 तक बढ़ा दिया गया था।

2. महत्वपूर्ण उपलब्धियां:

i. **कपास क्षेत्र:** एमएसपी के अंतर्गत कपास वर्ष 2017-18 (दिनांक 20.12.2017 के अनुसार) के दौरान सीसीआई द्वारा कपास की खरीद 3.66 लाख गांठ है जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान खरीद 'शून्य' थी। चालू कपास वर्ष (दिनांक 20.12.2017 के अनुसार) के लिए सामान्य खरीद (वाणिज्यिक खरीद) 0.71 लाख गांठ है जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान वाणिज्यिक खरीद 'शून्य' थी।

ii. **हथकरघों का संवर्धन:** हथकरघा बुनकरों को अपने उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं को बेचने के लिए सक्षम बनाने हेतु दिसंबर, 2017 के दौरान निम्नलिखित विपणन कार्यक्रम आयोजित किए गए:

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	स्थान	कार्यक्रमों की तारीख
1.	संत कबीर और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के लिए मास्टर क्रिएशन प्रदर्शनी	दिल्ली हाट, नई दिल्ली	01-15 दिसंबर, 2017
2.	वूल फैब	जनपथ, नई दिल्ली	16-29 दिसंबर, 2017
3.	राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो	दिल्ली हाट, नई दिल्ली	16-31 दिसंबर, 2017
4.	राष्ट्रीय स्तर के विशेष हथकरघा एक्सपो	वाराणसी, उत्तर प्रदेश	16-29 दिसंबर, 2017

iii. **प्रौद्योगिकी उन्नयन:** दिसंबर, 2017 माह के दौरान संशोधित टीयूएफएस के अंतर्गत 1,621.03 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत तथा 127.28 करोड़ रुपए की सब्सिडी आवश्यकता के साथ 508 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

iv. **विद्युतकरघा क्षेत्र:**

- **साधारण विद्युतकरघों के लिए स्व-स्थाने उन्नयन योजना:** दिसंबर, 2017 के दौरान कुल 3004 किटों को फिट किया गया तथा 360.05 लाख रुपए का व्यय किया गया।
- **संधोधित समूह वर्कशेड योजना:** दिसंबर, 2017 के दौरान संधोधित समूह वर्कशेड योजना के अंतर्गत 6.77 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी की गई है जबकि चालू वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान जारी की गई सब्सिडी 16.19 करोड़ रुपए है।
- **विद्युतकरघा कामगारों के लिए समूह बीमा योजना:** दिसंबर, 2017 के दौरान जीआईएस योजना के अंतर्गत विभिन्न नोडल एजेंसी द्वारा 21,774 विद्युतकरघा कामगार पंजीकृत किए गए।
